

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली
हौज खास, नई दिल्ली -110016
(औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई)
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
Hauz Khas, New Delhi-110016
(Industrial Research & Development Unit)

No. IITD/IRD/MI01344G/269326

Dated: 24/04/2024

Advertisement No.: IITD/IRD108/2024

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा.

Title of the Project	National Carbonaceous aerosols programme (NACP) working Group-III Project (sub proj. no.3 under MI01333) (MI01344G)	
Funding Agency	Ministry of Environment, Forest & Climate Change	
Name of the Project Investigator	Prof. Dilip Ganguly [email id:dilipganguly@cas.iitd.ac.in]	
Deptt./Centre	Centre for Atmospheric Sciences	
Duration of the Project	Upto:29/03/2025	
Post (s)	Consolidated fellowship / Pay-slab	Qualifications
Sr. Research Fellow (01)	Rs.35,000/-pm plus HRA @ 24%	1st class M.Sc. degree in Physics / Chemistry / Mathematics / Atmospheric / Oceanic / Climate Sciences / Meteorology with NET/GATE or 1st class M.Tech, degree in Atmospheric / Oceanic / Climate Science / Meteorology with NET/GATE. Experience: Candidate should have at least two years of research experience and expertise in performing numerical simulations using a global or regional climate model on a HPC system and analyze large volumes of satellite data of various geophysical parameters *The requirement of NET/GATE examination for the selection to the post of JRF/SRF may be relaxed for the candidates who have graduated from Centrally Funded Technical Institutes (CFTIs) with a CGPA of more than 8.000 (80% aggregate marks).

The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No. IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. **by e-mail with advertisement No. on the subject line to Prof. Dilip Ganguly at email id: dilipganguly@cas.iitd.ac.in**

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) **alongwith the online interview details. Only short-listed candidates will be informed for online interview.** In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact **Prof. Dilip Ganguly at email id: dilipganguly@cas.iitd.ac.in**

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। **The last date for submitting the completed applications by e-mail is 08/05/2024 by 5.00 p.m.**

सहायक कुल्सचिव, आईआरडी

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units : It is requested that the contents of the Above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD : To put advertisement at IITD website.
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. Dilip Ganguly, PI, Centre for Atmospheric Sciences (CAS)
- Copy to Chairperson, DRC/CRC